

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2022 — माघ 22, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2022

अधिसूचना
संख्या 37/2021 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-05/2022/वाक/पांच (16).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ये नियम 1 दिसंबर, 2021 से प्रवृत्त माने जायेंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,—

(i) नियम 137 में, 30 नवंबर, 2021 से, “चार वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “पांच वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में,—

(क) शीर्ष, “या विवरण” शब्दों के पश्चात्, “या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद 3 के सामने, स्तंभ (3) में, “लेखापरीक्षा, अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्दों के स्थान पर, “लेखापरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, स्वेच्छया, एससीएन, वार्षिक विवरणी, समाधान विवरण, संवीक्षा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख), मिलान न होना (प्ररूप जीएसटीआर-2ख और प्ररूप जीएसटीआर-3ख), अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) मद 5 के सामने, स्तंभ (1) में, “यदि इसके जारी होने के 30 दिन के भीतर”, शब्द और अंको के

पश्चात्, “संवीक्षा, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से सुनिश्चित कर की सूचना, संपरीक्षा, निरीक्षण या अन्वेषण, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)”, शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्रम संख्यांक 7 के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

| क्र. सं. | कर अवधि | अधिनियम | प्रदाय का स्थान (पीओएस) | कर/ उपकर | ब्याज | शास्ति, यदि लागू हो | फीस | अन्य | कुल | उपयोग किए गए खाते (नकद/प्रत्यय) | विकलन प्रविष्टि सं. | विकलन प्रविष्टि की तारीख |
|----------|---------|---------|-------------------------|----------|-------|---------------------|-----|------|-----|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ।।। |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2022

क्रमांक एफ 10-05/2022/वाक/पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/2022/वाक/पांच(16), दिनांक 27-01-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 27th January 2022

NOTIFICATION
No. 37/2021 – State Tax

No. F 10-05/2022/CT/V(16).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force from 1st December, 2021.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, —

(i) in rule 137, with effect from the 30th day of November 2021, for the words “four years”, the words “five years” shall be substituted.

(ii) in FORM GST DRC-03, —

(a) in the heading, after the words “or statement”, the words, letters and figures “or intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A” shall be inserted;

(b) against item 3, in column (3), for the word and letters “Audit, investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, others (specify)”, the words, letters, figures and brackets “Audit, inspection or investigation, voluntary, SCN, annual return, reconciliation statement, scrutiny, intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A, Mismatch (Form GSTR-1and Form GSTR-3B), Mismatch (Form GSTR-2B and Form GSTR-3B), others (specify)” shall be substituted;

(c) against item 5, in column (1), after the word and figures “within 30 days of its issue”, the words, letters, figures and brackets “, scrutiny, intimation of tax ascertained through Form GST DRC-01A, audit, inspection or investigation, others (specify)” shall be inserted;

(d) for the table, under serial number 7, for the table, the following table shall be substituted, namely:-

| “Sr. No. | Tax Period | Act | Place of supply (POS) | Tax/ Cess | Interest | Penalty, if applicable | Fee | Others | Total | Ledger utilised (Cash / Credit) | Debit entry no. | Date of debit entry |
|-------------|---------------|-----|--------------------------------|--------------|----------|---------------------------|-----|--------|-------|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ..”. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.